

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 214]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 मई 2016—वैशाख 29, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 मई 2016

क्रमांक:एफ बी-4-12/2013/2/पांच: (13)

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 5 व 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, डिण्डोरी जिले की शहपुरा तहसील में रजिस्ट्रीकरण उप जिला शहपुरा बनाती है जिसमें नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट ग्राम समाविष्ट होंगे, जो डिण्डोरी जिले के शहपुरा उप जिले में सम्मिलित हैं तथा उसके भाग हैं किन्तु जो इसके पश्चात् उक्त डिण्डोरी उप जिले में सम्मिलित नहीं रहेंगे व उसके भाग नहीं रहेंगे और कार्यालय, उप पंजीयक, शहपुरा के नाम से तहसील शहपुरा में एक कार्यालय स्थापित करती है, अर्थात् :-

अनुसूची

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम	बंदोबस्त क्रमांक	पटवारी हल्का क्रमांक	राजस्व निरीक्षक वृत्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मोहराकला	---	01	रयपुरा
2.	महरोई माल	---	---	---
3.	महरोई रैयत	---	---	---
4.	पायलीघुघरी माल	---	02	---
5.	पायलीघुघरी रैयत	---	---	---
6.	धिरवनकला	---	03	---
7.	खर्सीपार माल	---	---	---
8.	खुर्सीपार रैयत	---	---	---
9.	भिलाई माल	---	04	---
10.	भिलाई रैयत	---	---	---
11.	सलैया	---	05	---
12.	देवाझिर	---	---	---
13.	मगरमयूटगर	---	06	---
14.	गढी (वनग्राम)	---	---	---
15.	कछारी माल	---	07	---
16.	कछारी रैयत	---	---	---
17.	घुसिया रैयत	---	---	---
18.	डोभी	---	08	---
19.	मझगांव	---	---	---
20.	भटवारा	---	---	---
21.	देवगांव माल	---	09	---
22.	देवगांव रैयत	---	---	---
23.	डोमदादर	---	---	---
24.	सरसवाही माल	---	10	---
25.	कापा	---	---	---
26.	पहरूवा माल	---	---	---
27.	पहरूवा रैयत	---	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
28.	मानिकपुर	--	11	रयपुरा
29.	भरौठी माल	--	12	---
30.	बरबसपुर	--	---	---
31.	भाम्हा	--	---	---
32.	गंगपुरा	--	---	---
33.	रयपुरा माल	--	13	---
34.	लालपुर माल	--	---	---
35.	दुल्लोपुर	--	14	---
36.	खितौला माल	--	---	---
37.	खितौला रैयत	--	---	---
38.	चौरा माल	--	---	---
39.	चौरा रैयत	--	---	---
40.	पिटरी माल	--	---	---
41.	पिटरी रैयत	--	---	---
42.	पिपरिया	--	15	---
43.	कस्तूरी	--	---	---
44.	सांगवा	--	---	---
45.	चंदपुरा माल	--	---	---
46.	चंदपुरा रैयत	--	---	---
47.	सरई माल	--	16	---
48.	चरगांव	--	---	---
49.	पिपरिया माल	--	17	---
50.	कौआझिर रैयत	--	---	---
51.	कौआझिर माल	--	---	---
52.	बस्तारा माल	--	18	---
53.	आमाखोह	--	---	---
54.	बस्तारा रैयत	--	---	---
55.	बरगा रैयत	--	---	---
56.	सरवाही माल	--	19	---
57.	सरवाही रैयत	--	---	---
58.	बढ़ईगढ़ माल	--	20	---
59.	दोनाखेड़ा	--	---	---
60.	धनगांव	--	---	---
61.	बढ़ईगढ़ रैयत	--	---	---
62.	ददरगांव	--	21	---
63.	साल्हेघोरी रैयत	--	---	---
64.	मटका रैयत	--	22	---
65.	कौड़िया	--	---	---
66.	सारसडोली	--	---	---
67.	खैरभगदू माल	--	23	---
68.	डुकरीगांव माल	--	---	---
69.	शक्तिभगदू माल	--	---	---

	(2)	(3)	(4)	(5)
70.	देवरी खुर्द	---	24	रयपुरा
71.	भीमडोंगरी	---	---	---
72.	भीमपार	---	25	---
73.	मरवाही	---	26	---
74.	पड़रिया खुर्द	---	---	---
75.	निवसी	---	---	---
76.	बरोदी माल	---	27	---
77.	बरोदा माल	---	---	---
78.	पड़रिया कला	---	28	---
79.	सचौली धनगांव	---	---	---
80.	धिरवन खुर्द	---	29	---
81.	धारेगांव	---	---	---
82.	टिकरिया	---	30	---
83.	पौड़ी माल	---	---	---
84.	पिपराड़ी	---	---	---
85.	सुहगी	---	---	---
86.	संग्रामपुर माल	---	31	---
87.	संग्रामपुर रैयत	---	---	---
88.	जिमरा रैयत	---	---	---
89.	राछो माल	---	---	---
90.	गनेशपुर	---	32	---
91.	धनगांव	---	---	---
92.	अम्हाई देवरी	---	---	---
93.	झगरहटा डुंगरिया	---	33	---
94.	सोनबरसा	---	---	---
95.	झगरहटा (वनग्राम)	---	---	---
96.	पौड़ी	---	34	---
97.	उमरिया रैयत	---	---	---
98.	जलधरा (वनग्राम)	---	---	---
99.	ढोढा रैयत	---	35	---
100.	करौंदी रैयत	---	---	---
101.	बिलगढ़ा माल	---	---	---
102.	पिपरिया कला	---	36	शहपुरा
103.	कटेहरा रैयत	---	---	---
104.	बिजौरी रैयत	---	---	---
105.	पलकी रैयत	---	37	---
106.	करनपुरा माल	---	---	---
107.	ईशानपुरा रैयत	---	---	---
108.	अमठेरा	---	38	---
109.	बड़झर रैयत	---	---	---
110.	बिलगांव माल	---	39	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
111.	बरगांव	--	40	शहपुरा
112.	करौंदी	--	41	---
113.	बांकी	--	42	---
114.	मुड़की	--	---	---
115.	रनगांव	--	43	---
116.	मंगेला	--	---	---
117.	सूरजपुरा	--	---	---
118.	शहपुरा	--	44	---
119.	बिजौरी माल	--	45	---
120.	चरगांव रैयत	--	---	---
121.	गुतली माल	--	---	---
122.	मोहरा खुर्द	--	---	---
123.	चरगांव माल	--	---	---
124.	बरखेड़ा माल	--	46	---
125.	भरद्वारा माल	--	---	---
126.	करौंदी रैयत	--	---	---
127.	गुरैया	--	47	---
128.	समनपुरा माल	--	---	---
129.	समनपुरा रैयत	--	---	---
130.	सक्तीभगदू रैयत	--	---	---
131.	दल्काखम्हरिया माल	--	48	---
132.	दल्काखम्हरिया रैयत	--	---	---
133.	टिकरा खम्हरिया	--	---	---
134.	धनगांव	--	---	---
135.	देवरीकला	--	49	---
136.	कोहानी मय करौंदी माल	--	---	---
137.	कोहानी मय करौंदी रैयत	--	---	---
138.	कंहेजरा	--	50	---
139.	गजबाहर	--	---	---
140.	पिपरिया रैयत	--	---	---
141.	गुतलबाह	--	51	---
142.	घुटेना	--	---	---
143.	गुतली रैयत	--	---	---
144.	रावन कुण्ड	--	52	---
145.	पिपरिया माल	--	---	---
146.	दल्कासरई रैयत	--	---	---
147.	टिकरासरई उर्फ बांसा	--	53	---
148.	घुघवा	--	---	---
149.	दल्कासरई माल	--	54	---
150.	कुटदर रैयत	--	---	---
151.	छपरा	--	55	---
152.	गपैया	--	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
153.	कटंगी	---	56	शहपुरा
154.	बरबसपुर	---	---	---
155.	धनोली	---	---	---
156.	बिछिया	---	57	---
157.	देवरीकला	---	58	---
158.	इमलई	---	---	---
159.	देवरी रमपुरी रैयत	---	---	---
160.	रमपुरी माल	---	---	---
161.	बड़झर माल	---	59	---
162.	दल्काबांधा रैयत	---	---	---
163.	मोहनी माल	---	60	---
164.	उमरिया	---	---	---
165.	सरसवाही	---	---	---
166.	मोहनी रैयत	---	---	---
167.	कारी गडहरी माल	---	61	---
168.	कारी गडहरी रैयत	---	---	---
169.	चांटी माल	---	---	---
170.	धनगांव माल	---	---	---
171.	धनगांव रैयत	---	---	---
172.	कंचनपुर माल	---	62	---
173.	कंचनपुर रैयत	---	---	---
174.	डुंडीसरई	---	---	---
175.	पथरकटा	---	---	---
176.	इन्दौरी माल	---	63	---
177.	डोभी माल	---	---	---
178.	चंदवाही माल	---	64	---
179.	चंदवाही रैयत	---	---	---
180.	घुन्डी सरई माल	---	---	---
181.	घुन्डी सरई रैयत (वनग्राम)	---	---	---
182.	दूबामाल	---	65	---
183.	दूबा रैयत	---	---	---
184.	पटपरा रैयत	---	---	---
185.	छीरपानी (वनग्राम)	---	66	---
186.	पटपरा माल	---	---	---
187.	खम्हरिया रैयत	---	---	---
188.	खाल्हे महेशपुरी	---	---	---
189.	टिकरा महेशपुरी (वनग्राम)	---	---	---
190.	मालपुर माल	---	67	---
191.	मालपुर रैयत	---	---	---
192.	राखी रैयत	---	---	---
193.	खम्हरिया मय डुंगरिया	---	---	---

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194.	अमेरा	--	68	शहपुरा
195.	घुटेना	--	"	"
196.	रमपुरी रैयत	--	"	"
197.	राखी माल	--	69	"
198.	रमपुरी माल	--	"	"
199.	देवरी माल	--	70	"
200.	देवरी रैयत	--	"	"
201.	छपरा माल	--	"	"
202.	बिलगढा माल	--	71	मेंहदवानी
203.	कुटरई माल	--	72	"
204.	कुटरई रैयत	--	"	"
205.	पिपरिया	--	73	"
206.	सिलठार	--	"	"
207.	भानपुर	--	74	"
208.	टिकराबाधा	--	"	"
209.	सारंगपुर	--	75	"
210.	कनैरी रैयत	--	"	"
211.	मनैरी रैयत	--	76	"
212.	हथडोल	--	"	"
213.	पिण्डरई माल	--	"	"
214.	पिण्डरई रैयत	--	"	"
215.	चिरईपाप्पनी (वनग्राम)	--	"	"
216.	कनैरी माल	--	77	"
217.	सारसडोली माल	--	78	"
218.	कोसमघाट	--	79	"
219.	मोहगांव	--	"	"
220.	सारसडोली रैयत	--	"	"
221.	सलैया (वनग्राम)	--	"	"
222.	सुरजपुरा	--	80	"
223.	पगनिया	--	"	"
224.	मरहीकछार	--	"	"
225.	फुलवाही	--	81	"
226.	बदगिरी (वनग्राम)	--	"	"
227.	हिरदेपुर (वनग्राम)	--	"	"
228.	डोकरघाट	--	82	"
229.	बालपुर	--	"	"
230.	बिसवानी	--	"	"
231.	खुदरी (वनग्राम)	--	"	"
232.	मटियारी	--	83	"
233.	मुण्डी रैयत	--	"	"
234.	मरवाही रैयत	--	"	"

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
235.	मेंहदवानी	--	84	मेंहदवानी
236.	डुलहरी	--	85	— " —
237.	ददरगांव (वनग्राम)	--	— " —	— " —
238.	डोभी (वनग्राम)	--	— " —	— " —
239.	भुरका	--	86	— " —
240.	बगली	--	— " —	— " —
241.	धमनी	--	87	— " —
242.	कुसेरा	--	— " —	— " —
243.	कठौतिया	--	88	— " —
244.	बरई	--	89	— " —
245.	खजरी	--	90	— " —
246.	आमगांव	--	— " —	— " —
247.	पारापानी	--	91	— " —
248.	तांवरी	--	— " —	— " —
249.	खजरवारा	--	92	— " —
250.	सुडगांव	--	— " —	— " —
251.	सरसी माल	--	93	— " —
252.	सरसा रैयत	--	— " —	— " —
253.	चिरपोटी माल	--	94	— " —
254.	सरसी रैयत	--	— " —	— " —
255.	चिरपोटी रैयत	--	— " —	— " —
256.	पडरिया	--	95	— " —
257.	फतेहपुर	--	— " —	— " —
258.	उमरिया रैयत	--	96	— " —
259.	उमरिया माल	--	— " —	— " —
260.	चांटा माल	--	— " —	— " —
261.	चांटा रैयत	--	— " —	— " —
262.	सुखलौड़ी	--	97	— " —
263.	राखी	--	— " —	— " —
264.	खम्हरिया	--	— " —	— " —
265.	खम्हरिया (वनग्राम)	--	— " —	— " —
266.	जरहानैझर माल	--	98	— " —
267.	जरहानैझर रैयत	--	— " —	— " —
268.	खैरदा	--	— " —	— " —
269.	पायली	--	99	— " —
270.	देवरगढ़	--	— " —	— " —
271.	जैतपुरी	--	100	— " —
272.	कछारी	--	— " —	— " —
273.	कन्हारी	--	101	— " —
274.	तेन्दुडीह माल	--	— " —	— " —
275.	तेन्दुडीह रैयत	--	— " —	— " —

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
276.	छीरपानी	--	102	मेहंदवानी
277.	बहादुर	--	"	"
278.	पढ़रीटोला माल	--	103	"
279.	पढ़रीटोला रैयत	--	"	"
280.	हराटोला	--	"	"
281.	राघोपुर माल	--	104	"
282.	राघोपुर रैयत	--	"	"
283.	पोड़ी माल	--	"	"
284.	खम्हरिया	--	105	"
285.	साधो रैयत	--	"	"
286.	सीधो माल	--	"	"
287.	चौबीसा माल	--	106	"
288.	चौबीसा रैयत	--	"	"
289.	मुरलापानी	--	"	"
290.	कलगीटोला माल	--	107	"
291.	कलगीटोला रैयत	--	"	"
292.	मरवाही	--	"	"
293.	भलवारा	--	108	"
294.	ताला	--	"	"
295.	कौडाझिर	--	"	"
296.	जरगुडा	--	109	"
297.	घंघारीटोला माल	--	"	"
298.	घंघारीटोला रैयत	--	"	"
299.	राई	--	110	"
300.	खरगवारा	--	111	"
301.	कुकरा	--	"	"
302.	भौडासाज माल	--	112	"
303.	भौडासाज रैयत	--	"	"
304.	गुझयारी	--	"	"
305.	केवलारदर	--	113	"
306.	गिधलौड़ी	--	"	"
307.	दादरघुघरी (वनग्राम)	--	"	"
308.	बुलदा माल	--	114	"
309.	बुलदा रैयत	--	"	"
310.	पिण्डरूखी माल	--	"	"
311.	पिण्डरूखी रैयत	--	"	"
312.	अमरपुर (वनग्राम)	--	"	"
313.	मसूरघुघरी	--	115	"
314.	खाईपानी	--	"	"
315.	झामझोला (वनग्राम)	--	"	"
316.	धनगांव	--	116	"
317.	हराटोला (वनग्राम)	--	"	"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण परमार, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 19 मई 2016

क्र. एफ. बी-4-12-2013-2-पांच (13).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. बी-4-12-2013-2-पांच (13), दिनांक 19 मई, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरुण परमार, उपसचिव.

Bhopal, the 19th May, 2016

No.F. B-4-12/2013/2/V: (13)

In exercise of the powers conferred by section 5 and 7 of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, hereby, forms Registration Sub District of Shahpura in Tehsil Shahpura of District Dindori, comprising the villages specified in coloumn (2) of the Schedule given below which are included in and form part of sub-district of Shahpura of District Dindori, but shall hereafter cease to be included in and to form part of the said Dindori sub-district and establishes an office in Tehsil Shahpura to be styled as the office of Sub-Registrar, Shahpura, namely :-

SCHEDULE

S.No.	Name of village	Settlement Number	Patwari Halka No.	Revenue Inspector Circles
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Moharakalaa	--	01	Raypura
2.	Mahroee Maal	--	--"---	--"---
3.	Mahroee Riyyat	--	--"---	--"---
4.	Paayleeghughari Maal	--	02	--"---
5.	Paayleeghughari Riyyat	--	--"---	--"---
6.	Dhirvankalaa	--	03	--"---
7.	Khursipar Maal	--	--"---	--"---
8.	Khursipar Riyyat	--	--"---	--"---
9.	Bhilai Maal	--	04	--"---
10.	Bhilai Riyyat	--	--"---	--"---
11.	Salaiya	--	05	--"---
12.	Devajhir	--	--"---	--"---
13.	Magarmayutgar	--	06	--"---
14.	Garhi (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
15.	Kachhari Maal	--	07	--"---
16.	Kachhari Riyyat	--	--"---	--"---
17.	Ghusiya Riyyat	--	--"---	--"---
18.	Dobhi	--	08	--"---
19.	Majhgaon	--	--"---	--"---
20.	Bhatwara	--	--"---	--"---
21.	Devgaon Maal	--	09	--"---
22.	Devgaon Riyyat	--	--"---	--"---
23.	Domdadar	--	--"---	--"---
24.	Saraswahi Maal	--	10	--"---
25.	Kaapa	--	--"---	--"---
26.	Paharuwa Maal	--	--"---	--"---
27.	Paharuwa Riyyat	--	--"---	--"---
28.	Maanikpur	--	11	--"---
29.	Bharothi Maal	--	12	--"---

30.	Barbaspur	--	--"	Raypura
31.	Bhamha	--	--"	--"
32.	Gangpura	--	--"	--"
33.	Raypura Maal	--	13	--"
34.	Lalpur Maal	--	--"	--"
35.	Dullopur	--	14	--"
36.	Khitoula Maal	--	--"	--"
37.	Khitoula Riyyat	--	--"	--"
38.	Choura Maal	--	--"	--"
39.	Choura Riyyat	--	--"	--"
40.	Pitari Maal	--	--"	--"
41.	Pitari Riyyat	--	--"	--"
42.	Pipariya	--	15	--"
43.	Kastoori	--	--"	--"
44.	Saangwa	--	--"	--"
45.	Chandpura Maal	--	--"	--"
46.	Chandpura Riyyat	--	--"	--"
47.	Sarai Maal	--	16	--"
48.	Chargaon	--	--"	--"
49.	Pipariya Maal	--	17	--"
50.	Kouaajhir Riyyat	--	--"	--"
51.	Kouaajhir Maal	--	--"	--"
52.	Bastara Maal	--	18	--"
53.	Aamakhoh	--	--"	--"
54.	Bastara Riyyat	--	--"	--"
55.	Baraga Riyyat	--	--"	--"
56.	Sarwahi Maal	--	19	--"
57.	Sarwahi Riyyat	--	--"	--"
58.	Badhhaigarh Maal	--	20	--"
59.	Dounaakhedaa	--	--"	--"
60.	Dhangaon	--	--"	--"
61.	Badhhaigarh Riyyat	--	--"	--"
62.	Dadargaon	--	21	--"
63.	Saalheghoree Riyyat	--	--"	--"
64.	Mataka Riyyat	--	22	--"
65.	Koudiya	--	--"	--"
66.	Sarasdolee	--	--"	--"
67.	Khairbhagdu Maal	--	23	--"
68.	Dukarigoan Maal	--	--"	--"
69.	Saktibhagadu Maal	--	--"	--"
70.	Devarikhurd	--	24	--"
71.	Bheemdongari	--	--"	--"
72.	Bheembaar	--	25	--"
73.	Marwahee	--	26	--"

74.	Padariyakhurd	--	--"---	Raypura
75.	Nivasi	--	--"---	--"---
76.	Barondi Maal	--	27	--"---
77.	Barondi Riyyat	--	--"---	--"---
78.	Padariyakalaa	--	28	--"---
79.	Sachouli Dhangaon	--	--"---	--"---
80.	Dhirvankhurda	--	29	--"---
81.	Dharegaon	--	--"---	--"---
82.	Tikariya	--	30	--"---
83.	Pondi Maal	--	--"---	--"---
84.	Piparaadi	--	--"---	--"---
85.	Suhagee	--	--"---	--"---
86.	Sangrampur Maal	--	31	--"---
87.	Sangrampur Riyyat	--	--"---	--"---
88.	Jimara Riyyat	--	--"---	--"---
89.	Rachho Maal	--	--"---	--"---
90.	Ganeshpur	--	32	--"---
91.	Dhangaon	--	--"---	--"---
92.	Amhaidevari	--	--"---	--"---
93.	Jhangarhatadonagariya	--	33	--"---
94.	Sonwarsha	--	--"---	--"---
95.	Jhangarhata (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
96.	Pondi	--	34	--"---
97.	Umariya Riyyat	--	--"---	--"---
98.	Jaldhara (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
99.	Dhauda Riyyat	--	35	--"---
100.	Karondi Riyyat	--	--"---	--"---
101.	Bilagarha Maal	--	--"---	--"---
102.	Pipariyakalaa	--	36	Shahpura
103.	Katehra Riyyat	--	--"---	--"---
104.	Bijouri Riyyat	--	--"---	--"---
105.	Palaki Riyyat	--	37	--"---
106.	Karanpura Maal	--	--"---	--"---
107.	Ishanpura Riyyat	--	--"---	--"---
108.	Amtheraa	--	38	--"---
109.	Badajhar Riyyat	--	--"---	--"---
110.	Bilgaon Maal	--	39	--"---
111.	Bargaon	--	40	--"---
112.	Karondi	--	41	--"---
113.	Baanki	--	42	--"---
114.	Mudaki	--	--"---	--"---
115.	Rungaon	--	43	--"---
116.	Mangelaa	--	--"---	--"---
117.	Surajpura	--	--"---	--"---

118.	Shahpura	--	44	Shahpura
119.	Bijouree Maal	--	45	--"
120.	Chargaon Riyyat	--	--"	--"
121.	Gutali Maal	--	--"	--"
122.	Mohrakhurd	--	--"	--"
123.	Chargaon Maal	--	--"	--"
124.	Barkheda Maal	--	46	--"
125.	Bhardwara Maal	--	--"	--"
126.	karondi Riyyat	--	--"	--"
127.	Gouriya	--	47	--"
128.	Samanpura Maal	--	--"	--"
129.	Samanpura Riyyat	--	--"	--"
130.	Saktibhagadu Riyyat	--	--"	--"
131.	Dalkakhmhriya Maal	--	48	--"
132.	Dalkakhmhriya Riyyat	--	--"	--"
133.	Tikarakhmhriya	--	--"	--"
134.	Dhangaon	--	--"	--"
135.	Devarikalaa	--	49	--"
136.	Kohani myakarondi Maal	--	--"	--"
137.	Kohani myakarondi Riyyat	--	--"	--"
138.	Kahinjaraa	--	50	--"
139.	Gajbahaar	--	--"	--"
140.	Pipariya Riyyat	--	--"	--"
141.	Gutalbaah	--	51	--"
142.	Ghutena	--	--"	--"
143.	Gutali Riyyat	--	--"	--"
144.	Rawankund	--	52	--"
145.	Pipariya Mall	--	--"	--"
146.	Dalkasarai Riyyat	--	--"	--"
147.	Tikarasarai Urf Baansa	--	53	--"
148.	Ghughawaa	--	--"	--"
149..	Dalkasarai Maal	--	54	--"
150.	Kutadar Riyyat	--	--"	--"
151.	Chhapraa	--	55	--"
152.	Gapaiyya	--	--"	--"
153.	Katangi	--	56	--"
154.	Barbaspur	--	--"	--"
155.	Dhanouli	--	--"	--"
156.	Bichhiya	--	57	--"
157.	Devarikalaa	--	58	--"
158.	Imalai	--	--"	--"
159.	Devarirampuri Riyyat	--	--"	--"
160.	Rampuri Maal	--	--"	--"
161.	Badajhar Maal	--	59	--"

162.	Dalkabandhaa Riyyat	--	--"---	Shahpura
163.	Mohani Maal	--	60	--"---
164.	Umariya	--	--"---	--"---
165.	Sarawahi	--	--"---	--"---
166.	Mohani Riyyat	--	--"---	--"---
167.	Kaarigadahari Maal	--	61	--"---
168.	Kaarigadahari Riyyat	--	--"---	--"---
169.	Chaanti Maal	--	--"---	--"---
170.	Dhangaon Maal	--	--"---	--"---
171.	Dhangaon Riyyat	--	--"---	--"---
172.	Kanchanpur Maal	--	62	--"---
173.	Kanchanpur Riyyat	--	--"---	--"---
174.	Doondisarai	--	--"---	--"---
175.	Pathharkataa	--	--"---	--"---
176.	Indori Maal	--	63	--"---
177.	Dobhi Maal	--	--"---	--"---
178.	Chandwahi Maal	--	64	--"---
179.	Chandwahi Riyyat (Forst Vill.)	--	--"---	--"---
180.	Ghundisarai Maal	--	--"---	--"---
181.	Ghundisarai Riyyat (Forest Vill)	--	--"---	--"---
182.	Doobaa Maal	--	65	--"---
183.	Doobaa Riyyat	--	--"---	--"---
184.	Patapraa Riyyat	--	--"---	--"---
185.	Chherpaani (Forest Vill.)	--	66	--"---
186.	Patapraa Maal	--	--"---	--"---
187.	Khamhriya Riyyat	--	--"---	--"---
188.	Khalhemaheshpuri	--	--"---	--"---
189.	Tikramaheshpuri (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
190.	Maalpur Maal	--	67	--"---
191.	Maalpur Riyyat	--	--"---	--"---
192.	Raakhi Riyyat	--	--"---	--"---
193.	Khamhriya mya dungariya	--	--"---	--"---
194.	Amera	--	68	--"---
195.	Ghutena	--	--"---	--"---
196.	Rampuri Riyyat	--	--"---	--"---
197.	Raakhi Maal	--	69	--"---
198.	Rampuri Maal	--	--"---	--"---
199.	Devari Maal	--	70	--"---
200.	Devari Riyyat	--	--"---	--"---
201.	Chhaparaa Maal	--	--"---	--"---
202.	Bilgarha Maal	--	71	Mehandwani
203.	Kutarai Maal	--	72	--"---
204.	Kutarai Riyyat	--	--"---	--"---
205.	Pipariya	--	73	--"---
206.	Silthhaar	--	--"---	--"---

207.	Bhaanpur	--	74	Mehandwani
208.	Tikarabandhaa	--	--"---	--"---
209.	Sarangpur	--	75	--"---
210.	Kaneri Riyyat	--	--"---	--"---
211.	Maneri Riyyat	--	76	--"---
212.	Hathhadol	--	--"---	--"---
213.	Pindarai Maal	--	--"---	--"---
214.	Pindaria Riyyat	--	--"---	--"---
215.	Chiraipani (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
216.	Kaneri Maal	--	77	--"---
217.	Saarasdoli Maal	--	78	--"---
218.	Kosamghaat	--	79	--"---
219.	Mohgoan	--	--"---	--"---
220.	Saarasdoli Riyyat	--	--"---	--"---
221.	Salaiya (Forset Vill.)	--	--"---	--"---
222.	Surajpura	--	80	--"---
223.	Paganiya	--	--"---	--"---
224.	Marhikachhaar	--	--"---	--"---
225.	Fulwaahi	--	81	--"---
226.	Badagiri (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
227.	Hirdepur (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
228.	Dokarghaat	--	82	--"---
229.	Baalpur	--	--"---	--"---
230.	Biswaani	--	--"---	--"---
231.	Khudari	--	--"---	--"---
232.	Matiyaree	--	83	--"---
233.	Mundi Riyyat	--	--"---	--"---
234.	Marwaahi	--	--"---	--"---
235.	Mehandwaani	--	84	--"---
236.	Dulahari	--	85	--"---
237.	Dadargaon (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
238.	Dobhi (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
239.	Bhurkaa	--	86	--"---
240.	Bagali	--	--"---	--"---
241.	Dhamani	--	87	--"---
242.	Kusera	--	--"---	--"---
243.	Kathhoutiya	--	88	--"---
244.	Barrai	--	89	--"---
245.	Khajari	--	90	--"---
246.	Aamgaon	--	--"---	--"---
247.	Paarapaani	--	91	--"---
248.	Taanwari	--	--"---	--"---
249.	Khajarwaraa	--	92	--"---
250.	Sudagaon	--	--"---	--"---

(1)

251.	Sarasi Maal	--	93	Mehandwani
252.	Sarasa Riyyat	--	--"	--"
253.	Chirpoti Maal	--	94	--"
254.	Sarasi Riyyat	--	--"	--"
255.	Chirpoti Riyyat	--	--"	--"
256.	Padariya	--	95	--"
257.	Fatehpur	--	--"	--"
258.	Umariya Riyyat	--	96	--"
259.	Umariya Maal	--	--"	--"
260.	Chaanta Maal	--	--"	--"
261.	Chaanta Riyyat	--	--"	--"
262.	Sukhlondi	--	97	--"
263.	Raakhi	--	--"	--"
264.	Khamariya	--	--"	--"
265.	Kharmariya (Forest Vill.)	--	--"	--"
266.	Jarhaanejhar Maal	--	98	--"
267.	Jarhaanejhar Riyyat	--	--"	--"
268.	Khairdaa	--	--"	--"
269.	Paayali	--	99	--"
270.	Devargarh	--	--"	--"
271.	Jaitpuri	--	100	--"
272.	Kachhaari	--	--"	--"
273.	Kanhaari	--	101	--"
274.	Tendudeeh Maal	--	--"	--"
275.	Tendudeeh Riyyat	--	--"	--"
276.	Chheerpaani	--	102	--"
277.	Bahaadur	--	--"	--"
278.	Padritola Maal	--	103	--"
279.	Padritola Riyyat	--	--"	--"
280.	Harraatola	--	--"	--"
281.	Raaghopur Maal	--	104	--"
282.	Raaghopur Riyyat	--	--"	--"
283.	Pondi Maal	--	--"	--"
284.	Khamhariya	--	105	--"
285.	Seedho Riyyat	--	--"	--"
286.	Seedho Maal	--	--"	--"
287.	Choubisaa Maal	--	106	--"
288.	Choubisaa Riyyat	--	--"	--"
289.	Murlapani	--	--"	--"
290.	Kalagitolaa Maal	--	107	--"
291.	Kalagitolaa Riyyat	--	--"	--"
292.	Marawaari	--	--"	--"
293.	Bhalwaraa	--	108	--"
294.	Taala	--	--"	--"
295.	Koudajhir	--	--"	--"

296.	Jaragudaa	--	109	--"---
297.	Ghanghaaritola Maal	--	--"---	--"---
298.	Ghanghaaritola Riyyat	--	--"---	--"---
299.	Raai	--	110	--"---
300.	Khargwaraa	--	111	--"---
301.	Kukarraa	--	--"---	--"---
302.	Bhoudasaaj Maal	--	112	--"---
303.	Bhoudasaaj Riyyat	--	--"---	--"---
304.	Gujhayaari	--	--"---	--"---
305.	Kevalardar	--	113	--"---
306.	Gidhaloudi	--	--"---	--"---
307.	Daadarghughri (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
308.	Buladaa Maal	--	114	--"---
309.	Buladaa Riyyat	--	--"---	--"---
310.	Pindrukhi Maal	--	--"---	--"---
311.	Pindrukhi Riyyat	--	--"---	--"---
312.	Amarpur (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
313.	Masoorghughari	--	115	--"---
314.	Khaaipani	--	--"---	--"---
315.	Jhaamjhola (Forest Vill.)	--	--"---	--"---
316.	Dhangaon	--	116	--"---
317.	Harratola (Forest Vill.)	--	--"---	--"---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
ARUN PARMAR, , Dy. Secy.